



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 17, 2006/फाल्गुन 26, 1927

No. 253]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 17, 2006/PHALGUNA 26, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2006

(आय-कर)

का.आ. 358(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2006 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में, -

(क) भाग vi में, नियम 31कग के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

‘बैंककारी कंपनी द्वारा धारा 206क के अधीन तिमाही विवरणी दिए जाने के लिए सावधि जमाओं की विशिष्टियों का रखा जाना

31कग. (1) किसी बैंककारी कंपनी की प्रत्येक शाखा, जिससे स्रोत पर कर की कटौती किए बिना सावधि निक्षेपों पर ब्याज की बाबत धारा 206क की उपधारा (1) के अधीन तिमाही विवरणी प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की गई है, ऐसी सावधि जमाओं की विशिष्टियां प्ररूप सं० 26थक में रखेगी और अनुरक्षित करेगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक शाखा जो अपने दैनिक लेखे कम्प्यूटर मीडिया पर रखती है, वे कम्प्यूटर रीडेबल मीडिया पर प्ररूप सं० 26थक में विशिष्टियां रखेगी।

धारा 206क के अधीन तिमाही विवरण

31कगक. (1) सावधि जमाओं की बाबत धारा 206क की उपधारा (1) के अधीन बैंककारी कंपनी द्वारा दी की जाने वाली तिमाही विवरणी प्ररूप सं0 26थकक में होगी और उसे उसमें उपदर्शित रीति में सत्यापित किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट तिमाही विवरणी -

- (i) आय-कर महानिदेशक (अन्वेषण), नई दिल्ली को या आय-कर महानिदेशक (अन्वेषण), नई दिल्ली द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ;
- (ii) अनुवर्ती वित्तीय वर्ष की संबंधित तिमाहियों के लिए विवरणियां 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 30 जून को या उससे पूर्व दी जाएंगी ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप सं0 26थकक के भाग क और भाग ख को समाविष्ट करते हुए तिमाही विवरणी सीडी-रोम (650 एमबी या उच्चतर क्षमता) या डिजिटल वीडियो डिस्क (डीवीडी) में कंप्यूटर रीडेबल मीडिया पर ऐसे प्ररूप के भाग क सहित कागज पर दी जाएगी ।

(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि -

- (i) जहां विवरणी से संबंधित डाटा की डाटा कंप्रेशन या बैक-अप साफ्टवेयर यूटिलिटी का उपयोग करते हुए प्रति तैयार की जाती है वहां तदरूपी साफ्टवेयर यूटिलिटी या प्रक्रिया उसके ही डीकंप्रेशन या रैस्टोरेशन के लिए कंप्यूटर रीडेबल मीडिया पर दी गई (पठनीय) विवरणी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा ।

- (ii) विवरणी के साथ साफ और वायरस मुक्त डाटा के संबंध में प्रमाणपत्र लगा होगा ।

स्पष्टीकरण - नियम 31कग और नियम 31कगक के प्रयोजनों के लिए “ सावधि निक्षेप” से नियत अवधि के अवसान पर प्रतिसंदेय निक्षेप (आवर्ती निक्षेपों को छोड़कर) अभिप्रेत हैं । ’ ;

(ख) परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं0 26थक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे,

अर्थात् :-

“प्ररूप सं० 26थक

(धारा 206क और नियम 31कग देखें)

धारा 206क के अधीन दिए जाने वाले तिमाही विवरण के लिए तैयार किए जाने वाले अपेक्षित विवरण

1. (क) कर कटौती और संग्रहण लेखा सं० (टैन)

(ग) वित्तीय वर्ष

(ख) स्थायी लेखा सं० (पैन)

(घ) निर्धारण वर्ष

2 संदायकर्ता की विशिष्टियां

(क) नाम

(ख) शाखा/प्रभाग/कार्यालय/यूनिट

(ग) बीएसआर कोड, यदि कोई हो

(घ) पता

(i) फ्लैट/परिसर सं०

(iii) सड़क/स्ट्रीट/लेन

(v) नगर/शहर/जिला

(vii) पिनकोड

(ix) ई-मेल

(ii) परिसर/भवन का नाम

(iv) क्षेत्र/अवस्थिति

(vi) राज्य

(viii) टेलीफोन सं०

3. धारा 2006 क के अधीन वित्तीय वर्ष की को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए सावधिक जमा समय निक्षेप का ब्यौरा ।

व्यक्ति का विशिष्टियां	क्र०सं०	तिमाही के पहले दिन सावधि जमा का ब्यौरा		तिमाही के दौरान किए गए समय सावधि जमा का ब्यौरा		अगली तिमाही के लिए प्ररूप सं० 26घक में सम्मिलित न किए जाने वाले सावधि जमा के ब्यौरे			तिमाही के दौरान संदत्त / जमा ब्याज की रकम (319)
		रकम 312	निदेश सं० (313)	रकम (314)	निदेश सं० (315)	रकम (316)	निदेश सं० (317)	कारण (318)	
1. नाम (302)	(301)								
पैन * (303)	1.								
जन्मतिथि (304)	2.								
फ्लैट /परिसर सं० (305)	3.								
परिसर का नाम (306)	-								
सड़क/स्ट्रीट/लेन (307)									
क्षेत्र/अवस्थिति (308)									
नगर/शहर/जिला (309)									
राज्य (310)									
पिनकोड (311)									
2.									

*जहां पैन उपलब्ध नहीं वहां लागू नहीं होता उल्लेख करें । ** जहां जन्मतिथि उपलब्ध नहीं है, वहां लागू नहीं होता निर्दिष्ट करें ।*** इस प्ररूप में सम्मिलित न किए जाने वाले प्ररूप 26थ (नियम 31 क) में स्पोट किए जाने वाले सावधि जमा **** तिमाही के दौरान नकदीकरण के लिए 1 लिखें नवीकरण के लिए 2 लिखें , वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्ति को संदाय किए जाने वाले ब्याज 5000 रुपए से अधिक हो तो 3 लिखें और किन्हीं अन्य कारणों के लिए 4 लिखें ।

प्ररूप सं० 26थकक

[धारा 206क और नियम 31कगक देखिए]

वित्तीय वर्ष.....की जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च (जो लागू हो उसे टिक करें) को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए धारा 206क के अधीन तिमाही विवरण
(सभी शाखाओं के लिए समेकित विवरणी के रूप में दिए जाने चाहिए)

भाग-क

- (i) व्यक्ति का नाम
(iii) व्यक्ति का पता

(ii) स्थायी लेखा सं०

(iv) तिमाही के अंतिम दिन सावधि जमाओं की कुल सं०

सत्यापन

मैं.....प्रमाणित करता हूँ कि भाग क और भाग ख में दिए गए सभी विवरण सही और पूर्ण हैं।

स्थान :

तारीख :

बैंककारी कंपनी/सहकारी सोसाइटी/पब्लिक कंपनी के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर.....
प्रधान अधिकारी का नाम और पदनाम.....

(कार्यालय उपयोग के लिए)

रसीद सं०

तारीख

तिमाही विवरणी प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर (मोहर सहित) :.....

भाग-ख

(कंप्यूटर मीडिया पर)

वित्तीय वर्ष.....के.....को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए धारा 206क के अधीन तिमाही विवरणी।

- (i) व्यक्ति का नाम

(ii) स्थायी लेखा सं०

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2006

(INCOME-TAX)

S.O. 358(E).—In exercise of the powers conferred by Section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1.(1) These rules may be called the Income-tax (Second Amendment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, -

(a) in Part VI, for rule 31AC, the following rules shall be substituted, namely:-

'Maintenance of particulars of time deposits by a banking company for furnishing quarterly return under section 206A.

31AC. (1) Every branch of a banking company, which is required to make a quarterly return under sub-section (1) of section 206A in respect of interest on time deposits without deduction of tax at source, shall keep and maintain the particulars of such time deposits in Form No. 26QA.

(2) Every branch referred to in sub-rule (1) which is maintaining its daily accounts on computer media, shall keep and maintain the particulars in Form No. 26QA on computer readable media.

Quarterly return under section 206A.

31ACA. (1) The quarterly return to be furnished by a banking company under sub-section (1) of section 206A in respect of time deposits shall be in Form No. 26QAA and shall be verified in the manner indicated therein.

(2) The quarterly return referred to in sub-rule (1) shall be furnished, -

- (i) to the Director General of Income-tax (Investigation), New Delhi or the person authorised by the Director General of Income-tax (Investigation), New Delhi;
- (ii) on or before the 31st July, the 31st October, the 31st January and the 30th June following the respective quarter of the financial year.

(3) The quarterly return comprising Part A and Part B of Form No. 26QAA, referred to in sub-rule (1), shall be furnished on computer readable media being a CD-ROM (650 MB or higher capacity) or Digital Video Disc (DVD), along with Part-A of such Form on paper.

(4) The person responsible for furnishing the return referred to in sub-rule (1) shall ensure that -

- (i) where the data relating to the return is copied using data compression or backup software utility, the corresponding software utility or procedure for its decompression or restoration shall also be furnished along with the return made on computer readable media;
- (ii) the return is accompanied with a certificate regarding clean and virus free data.

Explanation. - For the purposes of rule 31AC and rule 31ACA, "time deposits" means deposits (excluding recurring deposits) repayable on the expiry of fixed periods.;

(b) in Appendix II, for Form No. 26QA, the following Forms shall be substituted, namely:-

"FORM NO. 26QA

[See section 206A and rule 31AC]

Particulars required to be maintained for furnishing quarterly return under section 206A.

1. (a) Tax Deduction and Collection Account No. (TAN)

(b) Permanent Account No. (PAN)

2. Particulars of the payer.

(a) Name

(d) Address:

(i) Flat/ Premises No.

(iii) Road/ Street/ Lane

(v) Town/ City/ District

(vii) Pin Code

(ix) E-mail

(b) Branch/ Division/ Office/ Unit

(c) BSR Code, if any

(ii) Name of the premises/ building

(iv) Area/ Location

(vi) State

(viii) Telephone No.

3. Details of time deposits for the quarter ended _____ of the Financial Year _____ under section 206A.

Particulars of the Person			Sl. No.		Details of time deposit on the first day of the Quarter***		Details of time deposit made during the Quarter***		Details of time deposits not to be included in Form No. 26QA for next Quarter			Interest paid/ credited during the Quarter (319)
			(301)	Amount (312)	Reference No. (313)	Amount (314)	Reference No. (315)	Amount (316)	Reference No. (317)	Reasons**** (318)		
1.	Name	(302)	1.									
	PAN*	(303)	2.									
	Date of Birth**	(304)	3.									
	Flat/ Premises No.	(305)	-									
	Name of the premises	(306)	.									
	Road/ Street/ Lane	(307)	.									
	Area/ Location	(308)										
	Town/ City/ District	(309)										
	State	(310)										
	Pin Code	(311)										
2.												

* Mention NA where PAN is not available ** Mention NA where Date of Birth is not available ***

* Mention NA where PAN is not available. ** Mention NA where Date of Birth is not available. *** Time deposits to be reported in Form No. 26Q [rule 31A] not to be included in this Form.
 **** Write 1 for encashment during the Quarter, 2 for renewal, 3 if interest likely to be payable to the person during the Financial Year exceeds Rs. 5,000/-, and 4 for any other reason.

FORM NO. 26QAA

[See section 206A and rule 31(4A)]

Quarterly return under section 206A for the quarter ended June/ September/ December/ March (tick whichever applicable) of the Financial Year
(To be furnished as consolidated return for all the branches)

PART-A

- (i) Name of the Person
(iii) Address of the Person
- (ii) Permanent Account Number
(iv) Total number of term deposits on the last day of the quarter

VERIFICATION

I, _____ hereby certify that all the particulars furnished in Part-A and Part-B are correct and complete.

Place:

Date:

Signature of the principal officer of the banking company/ co-operative society/ public company _____

Name and designation of the principal officer _____

(FOR OFFICE USE)

Receipt No. _____ Date: _____ Name and signature of the person receiving the quarterly return (with stamp): _____

PART-B

(on computer media)

Quarterly return for the quarter ended _____ of the Financial Year _____ under section 206A.

- (i) Name of the Person
(iii) Address of the Person
(v) Break-up of number of time deposits (Please furnish the details for each branch separately)
- (ii) Permanent Account Number
(iv) Total number of term deposits on the last day of the quarter

Sl. No.	Particulars of the Branch	No. of time deposits on the first day of the Quarter of value				Details of time deposits made during the Quarter of value				Details of time deposits not to be included in Form No. 26QAA for next Quarter of value						
		below Rs. 25,000 (504)	Rs. 25,000- 50,000 (505)	Rs. 50,000- Rs. 1,00,000 (506)	Rs. 1,00,000- 5,00,000 (507)	above Rs. 5,00,000 (508)	below Rs. 25,000 (509)	Rs. 25,000- 50,000 (510)	Rs. 50,000 - 1,00,000 (511)	Rs. 1,00,000 - 5,00,000 (512)	above Rs. 5,00,000 (513)	below Rs. 25,000 (514)	Rs. 25,000- 50,000 (515)	Rs. 50,000 - 1,00,000 (516)	Rs. 1,00,000- 5,00,000 (517)	above Rs. 5,00,000 (518)
(501)																
1.	TAN(502) Address BSR Code(503), if any															
2.																

[Notification No. 71/2006/F. No. 133/47/2005-TPL]

A. SREENIVASA RAO, Under Secy. (TPL-III)

Note:— The Principal Rules were published vide Notification No. S.O. 969(E) dated 26-03-1962 and were last amended vide notification No. S.O. 303(E) dated 9th March, 2006.